

केन्द्रीय विद्यालय एन.डी.ए. पुणे

आवर्त परीक्षा-1- 2018

विषय - हिन्दी (अ)

समय : 90 मि.

कक्षा-दसवीं

पूर्णांक : 40अंक

प्र.1. निम्नलिखित पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए- 1X 5 =5 अंक

बेटों की तरह बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाना,
क्या माँ-बाप भूल गए हैं, बेटियों की जलालत ?
दिखाई नहीं देता या फिर देखना नहीं चाहते,
क्या बेटियाँ तंग सकरी दुर्गंध भरी गलियों से आती हैं?
और बेटे आते हैं खूब सूरत रंगीन चौड़ी-चौड़ी सड़कों से।
बेटियाँ सूने घर की कीलकारी हैं,
ये आंगन की सुन्दर फूलवारी हैं।
सास-ससुर क्यों यह भूल जाते हैं,
उन्हीं जैसे माँ-बाप से आती हैं बेटियाँ।

क्या आँगन बदल जाने से,

लोगों की सोच बदल जाती है।

बेटों की तरह बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाना,

क्या माँ-बाप भूल गए हैं, बेटियों को पढ़ाना ।

अ. इस पद्यांश का शीर्षक हो सकता है ?

आ. कवि किसको आत्म निर्भर बनाना चाहता है ?

इ. बेटियों और बेटों के प्रति लोगों की सोच क्या है ?

ई. कवि के अनुसार आज माता-पिता क्या भूल गए हैं ?

उ. कवि के अनुसार बेटियाँ क्या हैं ?

प्र.2. निम्नलिखित वाक्यों से निर्देशानुसार पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए - 1X3=3

क. स्वावलम्बी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। (मिश्र वाक्य में बदलिए)

ख. सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। (सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए)

ग. उसने बाज़ार जाकर सब्जियाँ खरीदी। (संयुक्त वाक्य में बदलिए)

प्र.3. निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए- 1x4=4

क. राम दिल्ली घूमने गया ।

ख. वह चित्र बहुत सुन्दर है।

ग. दिल्ली भारत की राजधानी हैं।

घ. वह सुबह पढ़ने जाता है।

प्र.4. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 1+2+2= 5

अब हालदार साहब को बात कुछ-कुछ समझ में आई। एक चश्मेवाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेता जी की बगैर चश्मेवाली मूर्ति बुरी लगती है। बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा होती है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने-चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मेवाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा माँगते हुए – लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है।

क. चश्मेवाला नेताजी की मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा लगा देता है?

ख. चश्मेवाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है?

ग. चश्मेवाला नेताजी से क्षमा क्यों माँगता है?

प्र.5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 2+2+2= 6

क. “नेता जी का चश्मा” पाठ के आधार पर वर्णित कस्बे का चित्रण कीजिए ?

ख. पानवाले का चरित्र चित्रण कीजिए।

ग. बालगोबिन भगत ने समाज में व्याप्त किन-किन रुढ़ियों का खण्डन किया ?

प्र.6. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 1+2+2=5

उधौ तुम हो अति बड़भागी

अपरस रहत सनेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी।

पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी।

ज्यों जल माँह तेल की गागरि, बूँद न ताकों लागी।

प्रीति-नदी में पाऊँ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी।

सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी।

क. प्रीति-नदी में पाँव न बोरयो में निहित अलंकार का नाम लिखिए । - 1

ख. उद्धव के व्यवहार की तुलना किस-किस से की गयी है ?- 2

ग. गुर चांटी ज्यों पागी में निहित भाव का उल्लेख कीजिए।- 2

प्र.7. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 2+2= 4

क. गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है ?

ख. लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के समर्थन में क्या-क्या तर्क दिया है ?

ग. गोपियों को योग का संदेश कैसा लगा ?

प्र.8. निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए - = 3

क. भोलानाथ के समय की खेल सामाग्री और वर्तमान समय की खेल सामाग्री में क्या अंतर है ?

ख. विपत्ति के समय में भोलानाथ माँ की शरण क्यों लेता है ?

ग. बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं ?

प्र.9 अपने मित्र के जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखिए। - 5